



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 88) पटना, शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना  
18 नवम्बर 2013

सं0 1451—श्री महादेव पार्वती जी मंदिर, ग्राम—बेलवर, पो0—पीरापुर, मथुरा, थाना+अंचल—गोरौल, जिला—वैशाली पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4246 है।

मंदिर पोषक क्षेत्र के लोगों द्वारा पर्षद् को यह सूचित किया गया कि श्री विन्देश्वरी मिश्र इस सार्वजनिक मंदिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उक्त आरोप के आलोक में कारण पृच्छा की नोटिस पर्षद् द्वारा दी गयी, जिसके जवाब में श्री विन्देश्वरी मिश्र ने मंदिर सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति होने का दावा किया। तत्पश्चात् पर्षद् द्वारा अधिनियम की धारा—28 (2) (प) के तहत विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 02.01.2013 को यह निर्णय दिया गया कि यह मंदिर एक सार्वजनिक न्यास है तथा इसकी सारी सम्पत्ति इसी न्यास की सम्पत्ति है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सम्यक संचालन हेतु न्यास समिति गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ से न्यास समिति के सदस्यों का नाम माँगा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने पत्रांक 1022 दिनांक 17.08.13 के माध्यम से न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम पदनाम सहित भेजा है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उप—विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री महादेव पार्वती जी मंदिर, ग्राम—बेलवर, पो0—पीरापुर, मथुरा, थाना+अंचल—गोरौल, जिला—वैशाली की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है, तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री महादेव पार्वती जी मंदिर, ग्राम—बेलवर न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री महादेव पार्वती जी मंदिर, ग्राम—बेलवर न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल गजट प्रकाशन की तिथि से पॉच वर्षों का होगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- |      |   |              |
|------|---|--------------|
| (1)  | श्री प्रमोद प्रसाद, पे0 स्व0 कामता प्रसाद, ग्राम-बेनीपट्टी, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली | — अध्यक्ष    |
| (2)  | श्री विश्वम्बर प्रसाद पे0 स्व0 नागेश्वर प्रसाद, ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली       | — सचिव       |
| (3)  | श्री सीताराम सिन्हा पे0 स्व0 सिकड़ी सिंह, ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली             | — कोषाध्यक्ष |
| (4)  | श्री युगुल कुमार भक्त पे0 स्व0 बुधन भगत, ग्राम-बेलवर, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली       | — सदस्य      |
| (5)  | श्री जगदिश ठाकुर पे0 स्व0 महदेव ठाकुर, ग्राम-बेलवर, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली         | — सदस्य      |
| (6)  | श्री राम नारायण साह पे0 स्व0 महादेव साह, ग्राम-बेलवर, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली       | — सदस्य      |
| (7)  | श्री राम दयाल पासवान पे0 स्व0 संतलाल पासवान, ग्राम-बेलवर, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली   | — सदस्य      |
| (8)  | श्री देवनाथ सहनी पे0 स्व0 राम चन्द्र सहनी, ग्राम-बेलवर, पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली     | — सदस्य      |
| (9)  | श्री संजय कुमार सुमन पे0 स्व0 वासु सिंह, ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली              | — सदस्य      |
| (10) | श्री राम सागर सिंह पे0 स्व0 शिव प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली          | — सदस्य      |
| (11) | श्री वशिष्ठ सिंह पे0 स्व0 महादेव सिंह, ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा, थाना+अंचल-गोरौल, जिला-वैशाली                | — सदस्य।     |

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 88-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>